

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

सत्यमेव जयते

दिल्ली राजपत्र Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-21012023-242154
SG-DL-E-21012023-242154असाधारण
EXTRAORDINARYप्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 31]	दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 20, 2023/पौष 30, 1944	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 460
No. 31]	DELHI, FRIDAY, JANUARY 20, 2023/PAUSHA 30, 1944	[N. C. T. D. No. 460

भाग IV
PART IVराष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

गृह पुलिस-II विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 20 जनवरी, 2023

सं.फा. 3/01/हेस्मा/2020/गृह पुलिस-II/248-256.—जबकि गृह विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की दिनांक 22.07.2022 की अधिसूचना सं. फा. 3/01/हेस्मा/2020/गृ.पु. II/1577-1585 द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल ने अनिवार्य एवं निर्बाध सेवाओं के रखरखाव को सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली में भारतीय खाद्य निगम के गोदामों तक खाद्यान्नों के परिगमन, एफसीआई, डीएससीएससी लिमिटेड तथा सरकार द्वारा अपेक्षित किन्हीं अन्य गोदामों से खाद्यान्नों की लोडिंग/अनलोडिंग, इन गोदामों से उचित दर दुकान/नामित स्थानों पर खाद्यान्नों का आगे परिवहन तथा इन स्थानों पर खाद्यान्नों की लोडिंग/अनलोडिंग को दिनांक 21.01.2023 तक छः माह की अवधि के लिए अनिवार्य सेवा के रूप में घोषित किया था।

और जबकि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल आगे इस बात से संतुष्ट हैं कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में लोगों के लिए पर्याप्त मात्रा में राशन का प्रावधान और उपलब्धता राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में समुदाय के जीवन के लिए आवश्यक सेवाएं हैं।

अतः अब, इसलिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 30.7.1993 की अधिसूचना सं० जी एस आर 526(ई) के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में यथाविस्तारित हरियाणा अनिवार्य सेवाएं रखरखाव अधिनियम, 1974 (1974 का हरियाणा अधिनियम सं० 40) की धारा 4क के साथ पठित धारा 3 के अधीन उन्हें प्रदत्त

शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा उपर्युक्त सेवाओं को दिनांक 22.01.2023 से 21.07.2023 तक छः माह की और अवधि हेतु राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के लिए अनिवार्य सेवाएं घोषित करते हैं ।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,

राजन भटनागर, उप-सचिव (गृह विभाग)

HOME POLICE-II DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 20th January, 2023

F. 3/01/HESMA/2020/HP-II/248-256.—Whereas vide Home Department, Govt. of NCT of Delhi notification No. F.3/01/HESMA/2020/HP-II/1577-1585 dated 22.10.2020, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, in order to ensure maintenance of the essential and uninterrupted services, declared the movement of the food grains up to Food Corporation of India godowns in Delhi, loading/unloading of the food grains at the godowns of FCI godowns, DSCSC Ltd. and any other godowns requisitioned by the Govt. their further transportation of the food grains from these godowns to the Fair-Price Shops/designated locations and loading/unloading of the food grains at these locations as essential service for the period of six months i.e. upto 21.01.2023.

And whereas, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi is further satisfied that in the Public Distribution System and provision and availability of sufficient quantity of ration to the people in the national Capital Territory of Delhi are essential services necessary for the life of the community in the National Capital Territory of Delhi.

Now, therefore, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, in exercise of Powers conferred upon him under section 3 read with section 4A of the Haryana Essential Services Maintenance Act, 1974 (Haryana Act No. 40 of 1974) as extended to the National Capital Territory of Delhi, vide Govt. of India, Ministry of Home Affairs Notification No. GSR 526 (E) dated 30.7.93, hereby declares the above said services as essential services for the National Capital Territory of Delhi for other period of six months w.e.f. 22.01.2023 to 21.07.2023.

By Order and in the Name of the Lt. Governor
Of the National Capital Territory of Delhi,
RAJAN BHATNAGAR, Dy. Secy. (Home-IIB)